



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 वैशाख 1947 (श10)
(सं0 पटना 327) पटना, शुक्रवार, 25 अप्रील 2025

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
(पुरातत्व निदेशालय)

अधिसूचना
16 अप्रील 2025

सं० 5पुरा/स01-01/2016/13—राज्य सरकार ने बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग (पुरातत्व निदेशालय) की अधिसूचना संख्या-09 दिनांक 26.02.2021 द्वारा उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट पुरातात्विक स्थल/स्मारक सारण जिला में अवस्थित “करिंगा मकबरा” प्राचीन स्मारक/पुरातात्विक स्थल/अवशेष को सुरक्षित घोषित करने का प्रस्ताव “बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल, अवशेष तथा कलानिधि अधिनियम, 1976” की धारा-(3) की उपधारा-(1) के प्रावधान के अन्तर्गत अधिसूचित कर किया गया था, जिसकी एक प्रति उक्त प्राचीन स्मारक/पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष के निकट स्पष्ट रूप से द्रष्टव्य स्थल पर चिपका दी गई थी तथा इसके लिए दो माह की अवधि के अन्दर आपत्ति अथवा सुझाव आमंत्रित किए गये थे।

जनता को उपलब्ध कराई गई उक्त राजपत्रित अधिसूचना के आलोक में जिला पदाधिकारी, सारण के पत्रांक-503, दिनांक 04.04.2025 द्वारा अनापत्ति सूचित की गई है। सम्यक विचारोपरान्त ऊपर वर्णित पुरास्थल/स्मारक को सुरक्षित घोषित किए जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतएव एतद् द्वारा राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा-(3) की उपधारा-(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट सारण जिलान्तर्गत अवस्थित “करिंगा मकबरा” को पुरातात्विक स्थल के रूप सुरक्षित घोषित करती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रचना पाटिल,
निदेशक, पुरातत्व, बिहार।

बिहार सरकार द्वारा सुरक्षित घोषित किये जानेवाले प्राचीन स्मारक / पुरातात्विक स्थल/अवशेष की राजस्व

क्र.	पुरास्थल / स्मारक का नाम	अवशेष	खाता	खेसरा	रकबा एकड़./डी.	चौहद्दी	जमीन की किस्म	ग्राम	मौजा	प्रखंड	थाना	थाना नं०	जिला	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	सारण जिला अवस्थित महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल करीगा मकबरा	लगभग 3 कटठा में गुम्बद संरचना अवशेष के रूप में स्थित है।	1237	80	0/81.4	वर्तमान चौहद्दी उ०-गड़हा द०-गड़हा पू०-परती जमीन रैयती प०-रास्ता	केशरे-हिन्द	ब्रह्मपुर	ब्रह्मपुर	सदर, छपरा	छपरा मुफसिल	277	सारण	खतियान के अनुसार मौजा- ब्रह्मपुर, थाना न०-277, खाता सं० 1237, सर्वे नं० 80, जमीन का किस्म-केशरे-हिन्द रकबा-1 बीघा 1 कटठा 16 धुर है।

रचना पाटिल,
निदेशक, पुरातत्व, बिहार।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 327-571+10-डी०टी०पी०
Website: <https://egazette.bihar.gov.in/>